



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 911]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 18, 2001/अग्राहायण 27, 1923

No. 911]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 18, 2001/AGRAHAYANA 27, 1923

बाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(बाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 2001

का. आ. 1229 (अ).—जबकि केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट है कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं जिनके कारण जनहित में यह आवश्यक हो गया है कि तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 (1975 का 4) द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों में से कुछेक प्रतिबंध लागू करने बंद किए जाएं;

और जबकि केन्द्रीय सरकार ने अतिरिक्त अथवा अनधिकृत फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया (एफ सी वी) तम्बाकू की बिक्री कर्नाटक राज्य में तम्बाकू बोर्ड के निर्दिष्ट नीलामी मंचों से करना उपयुक्त समझा था।

अतः अब तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 (1975 का 4) की धारा 8 की उपधारा (2) के खंड (छ) के साथ पठित धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 28 फरवरी, 2002 तक की अवधि के लिए कर्नाटक राज्य में उक्त अधिनियम की धारा 10 के उपबंध के प्रवर्तन में ढील देती है और तम्बाकू बोर्ड द्वारा प्राधिकृत नीलामी मंचों पर अतिरिक्त अथवा अनधिकृत फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया तम्बाकू फसल की बिक्री की अनुमति देती है।

[फा. सं.-8/6/2001-ईपी(एग्री-VI)-1]

आर. गोपालन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th December, 2001

S.O. 1229 (E).—Whereas the Central Government is satisfied that the circumstances have arisen rendering it necessary in the public interest, that certain of the restrictions imposed by the Tobacco Board Act, 1975 (4 of 1975) should cease to be imposed.

And whereas the Central Government has considered it appropriate to dispose of excess or unauthorised Flue Cured Virginia (FCV) tobacco at the designated auction platforms of the Tobacco Board in the State of Karnataka.

Now, therefore in exercise of the powers conferred under Section 30 read with clause (g) of sub-section (2) of the section 8 of the Tobacco Board Act, 1975 (4 of 1975), the Central Government hereby relaxes the operation of the provision

of section 10 of the said Act in the State of Karnataka for the period from the date of publication of this notification in the Gazette of India upto 28th February, 2002, and permits the sale of excess or unauthorised Flue Cured Virginia tobacco crop at the auction platforms authorised by the Tobacco Board.

[F. No. 8/6/2001-EP(Agri.VI)-1]

R. GOPALAN, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 2001

का. आ. 1230 (अ).—जबकि केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट है कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं जिनके कारण जनहित में यह आवश्यक हो गया है कि भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 28 फरवरी, 2002 तक की अवधि के लिए तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 (1975 का 4) के सभी या किसी प्रावधान के प्रचालन को स्थगित कर दिया जाए अथवा उनमें ढील दी जाए;

जबकि तम्बाकू बोर्ड द्वारा यह सूचित किया गया है कि कर्नाटक राज्य में अनेक अपंजीकृत किसानों द्वारा फ्लू क्यूर्ड वर्जीनिया (एफ सी वी) तम्बाकू की खेती की गई है जिसमें मांग और आपूर्ति की स्थिति में अन्तर पैदा हो गया है।

और जबकि केन्द्रीय सरकार ने इसे उपयुक्त समझा है कि अतिरिक्त अथवा अनधिकृत फ्लू क्यूर्ड वर्जीनिया (एफ सी वी) तम्बाकू की बिक्री कर्नाटक में तम्बाकू बोर्ड के निर्दिष्ट नीलामी मंचों से की जाए;

इसलिए अब तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 (1975 का 4) की धारा 8 की उपधारा (2) के खंड (छ) के साथ पठित धारा 20क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा तम्बाकू बोर्ड का भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 28 फरवरी, 2002 तक की अवधि के लिए यह प्राधिकार देती है कि वह कर्नाटक राज्य में पंजीकृत अथवा अपंजीकृत किसानों के द्वारा उपजाए गए तम्बाकू के अतिरिक्त अथवा अनधिकृत उत्पादन की कर्नाटक में अपने नीलामी मंचों पर खरीद करने के लिए तम्बाकू बोर्ड के नियमित एवं पंजीकृत व्यापारियों तथा डीलरों का निम्नलिखित शर्तों के तहत अनुमति प्रदान कर सकेगा कि:

(क) अतिरिक्त तम्बाकू के लिए प्रत्येक पंजीकृत उपजकर्ता द्वारा अतिरिक्त शुल्क के रूप में 2 रुपए प्रति किग्रा. और सेवा प्रभार के रूप में बिक्री आय के 5 प्रतिशत का योगदान तम्बाकू निधि में किया जाएगा;

(ख) अनाधिकृत तम्बाकू के लिए प्रत्येक अपंजीकृत उपजकर्ता द्वारा अतिरिक्त शुल्क के रूप में 2 रुपए प्रति किग्रा. और सेवा प्रभार के रूप में बिक्री आय के 20 प्रतिशत का योगदान तम्बाकू निधि में किया जाएगा; और

(ग) वर्ष 2001 के लिए तम्बाकू की फसल के संबंध में अधिकारों के रिकार्ड की एक प्रति प्रस्तुत करना।

[फा. सं. 8/6/2001-ईपी(एग्री-VI)-1]

आर. गोपालन, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th December, 2001

S.O. 1230(E).—Whereas the Central Government is satisfied that circumstances have arisen rendering it necessary in the public interest, to suspend or relax for the period from the date of publication of this notification in the Gazette of India upto 28th February, 2002, the operation of all or any of the provisions of the Tobacco Board Act, 1975 (4 of 1975);

Whereas Central Government has been informed by the Tobacco Board that a large number of unregistered farmers have resorted to unauthorised Flue Cured Virginia (FCV) tobacco cultivation in the State of Karnataka, causing a mismatch between the demand and supply position;

And whereas the Central Government has considered it appropriate to dispose of the excess or unauthorised Flue Cured Virginia (FCV) tobacco at the designated auction platforms of the Tobacco Board in Karnataka;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under Section 20A read with clause (g) of sub-section (2) of the Section 8 of the Tobacco Board Act, 1975 (4 of 1975), the Central Government hereby authorises the Tobacco Board to admit, from the date of publication of this notification in the Gazette of India upto 28th February, 2002, the regular and registered traders and dealers of the Tobacco Board to purchase, at its auction platforms in Karnataka, the excess or unauthorised tobacco produced by registered or unregistered farmers in the State of Karnataka subject to the condition that:

(a) Rs. 2/- per kg. as extra fee and 5% of the proceeds of the sale as service charges shall be contributed to the Tobacco Fund by every registered grower for the excess tobacco;

(b) Rs. 2/- per kg. as extra fee and 20% of the proceeds of the sale as service charges shall be contributed to the Tobacco Fund by every unregistered grower for the unauthorised tobacco; and

(c) A copy of the Record of Rights in respect of the tobacco crop for the year 2001.

[F. No. 8/6/2001-EP(Agri.VI)-1]

R. GOPALAN, Jt. Secy.